


टेलर स्विफ्ट ने बनाया एक स्थान पर ६ दिन लगातार सोल्ड आउट शो का रिकॉर्ड



टेलर स्विफ्ट संगीत की दुनिया का एक जाना माना नाम है। अमेरिका के आलावा और सभी देशों में भी इनके गाने बहुत ही पसंद किये जा रहे हैं। टेलर इनदिनों अपने अल्बम १९८९ का प्रचार करने के लिए दुनिया भर में शो कर रही हैं। यहाँ एक बात आपको बता दें कि टेलर का जन्म भी १०८९ में हुआ है। इसी दौर में २५ अगस्त को स्टेपल सेंटर लॉस एंजेलिस में टेलर स्विफ्ट का शो हुआ। लॉस एंजेलिस के स्टेपल सेंटर में होने वाले ५ शो में से ये एक था। इस सेंटर में इनके कुल ६ शो होने है और सभी शो के सारे टिकट बिक चुके हैं।



स्टेपल सेंटर में ऐसा किसी कलाकार के साथ पहली बार हुआ है, इसीलिए स्टेपल सेंटर में टेलर स्विफ्ट का एक बैनर स्थायी रूप लगा दिया गया है, जिसपर लिखा है “टेलर स्विफ्ट मोस्ट सोल्ड आउट पर्फॉर्मेंसेस”। टेलर स्विफ्ट अपने प्रत्येक शो में मेहमान कलाकार को लाती है और अपने दर्शकों को आश्चर्य चकित कर देती हैं। कल के शो में ग्रैमी पुरस्कार विजेता टे बीक और विन्सेंट मेहमान कलाकार थे। लोग उनको देख कर खुशी से झूम उठे। कार्यक्रम का प्रारम्भ वेन्स जाँय ने अपनी सुन्दर आवाज में “आई गॉट अ लॉट टू से” से किया उसके बाद उनके हर गाने को लोगों ने खूब सराहा। इसके बाद हैम(अमेरिका का पॉप बैंड), उसने परफॉर्म किया .लोग इसकी धुनों पर झूमते नज़र आये। .इस बैंड ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। .लोग अब अपनी चहीती गायिका टेलर स्विफ्ट का इंतजार कर रहे थे। टेलर “वेलकम टू न्यू यॉर्क” गाते हुए मंच पर आई लोग खड़े हो गए और पूरा स्टेडियम टेलर स्विफ्ट के नाम की आवाज से गूँजने लगा। प्रत्येक गाने के बीच मैं प्रोलोग और उनके दोस्तों के साक्षात्कार दिखाए गए। मंच की सजावट बहुत अच्छी थी। टेलर के साथ मंचपर नृत्यकलाकर बहुत ही उत्तम नृत्य प्रस्तुत



कर रहे थे। विभिन्न प्रॉप्स ने नृत्य को और भी सुन्दर बना दिया था। टेलर स्विफ्ट ने अपने सारे फैंस को अपना दोस्त कहा और कहा कि किसी के लिए स्वयं को बदलने कि कोई जरूरत नहीं है। घूमने वाले पेटफॉर्म पर टेलर ने लव स्टोरी, क्लीन और योर इन लाइव, गाने गाए। घूमने वाले प्लेटफॉर्म से टेलर अपने प्रसंशकों के बीच में पहुँच गयीं इतने पास के उनसे हाथ भी मिलाया जा सकता था। दर्शकों को हाथ में पहनने के लिए बैंड दिया गया

था, जो भिन्न भिन्न रंगों में चमकता था। टेलर स्विफ्ट के गाये हर गानों के साथ बैंड एक अलग रंग के प्रकाश में चमक उठता था और ऐसा लगता था कि मानो पूरे स्टेडियम में एक ही रंग के तमाम जुगनू निकल आए हैं।

देर रात तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लोग कार्यक्रम के खत्म होने तक स्टेडियम में बैठे रहे। टेलर के गाने मानवीय सम्बन्धों पर आधारित होते हैं जो सुनने वालों को कहीं न कहीं अपनी कहानी लगते हैं, इसीलिए इनके गाने लोगों के हृदय में उत्तर जाते हैं। टेलर का ये कंसर्ट शो के हर मापदंड पर खरा उतरता है। टेलर के साथ इस शो के आयोजक भी बधाई के पात्र हैं।